



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा घटाएं ये सरल उपाय अपनाएं



1

बुखार और खाँसी हो तो
यात्रा करने से बचें



2

नियमित रूप से साबुन
और पानी से हाथ धोएं



3

अपने स्वास्थ्यकर्मी के साथ
पिछली यात्रा की जानकारी साझा करें



अगर खाँसी, बुखार या साँस
लेने में परेशानी हो तो तुरंत
डॉक्टर से संपर्क करें

सुरक्षित
रहें!

कोरोना वायरस
से बचे रहें!

यदि आप पिछले 15 जनवरी के बाद वुहान-चीन से लौटे हैं, तो अपने आप को 2019-nCoV के लिए टेस्ट जरूर करवाएं। टेस्ट करवाने के स्थान की जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के हेल्प लाइन पर कॉल करें :

यदि आप पिछले 15 दिनों में चीन से लौटे हैं, या कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो अगले 14 दिनों के लिए सब के साथ संपर्क सीमित करें और अलग कमरे में सोयें।

चीन से लौटने के बाद 28 दिन के भीतर, अगर आपको बुखार, खाँसी या साँस लेने में तकलीफ़ जैसी कोई भी समस्या हो, तो तुरंत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें :

24X7 +91-11-23978046

www.mohfw.nic.in
www.mygov.in
www.pmindia.gov.in

YouTube mohfwindia
@MoHFW_INDIA

http://ncdc.gov.in/
@director_NCDC

